



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032025-261673
CG-DL-E-17032025-261673

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1207]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 17, 2025/फाल्गुन 26, 1946

No. 1207]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 17, 2025/PHALGUNA 26, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2025

का.आ. 1220(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि त्रिपुरा राज्य में कूप एसडी#24 से सुंदलबाड़ी मैनिफोल्ड तक प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए ओ.एन.जी.सी लिमिटेड के द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी आवश्यक है।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

अतः अब, संघ सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा (3) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जब से इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओ एन जी सी बेस कॉम्प्लेक्स, बदरघाट, अगरतला, त्रिपुरा 799014, त्रिपुरा को लिखित रूप से आपत्ति भेज सकता है।

अनुसूची

Well SD#24 to Sundalbari Manifold

मौजा: मोहनभोग

जिला: सिपाहीजला

तहसील: तेलकाजला

उप-प्रभाग : सोनामुरा

भूमि की अनुसूची:

क्र. सं.	खसरा सं.	प्लॉट सं.	भूमि का वर्ग	एकड़ में क्षेत्रफल
1	286	2826	लूंगा	0.43
2	756	1032	टीला	0.01
3	1191	1029	लूंगा	0.08
4	1191	1028	चारा (लूंगा)	0.05
5	1038	1027	टीला	0.04
6	1177	1020	टीला	0.32
7	229	999	लूंगा	0.22
8	3/4	1024/4126	टीला	0.02
9	600	1024	टीला	0.13
10	229	998	चारा (लूंगा)	0.08
11	600	997	चारा (टीला)	0.07
12	285	1000	लूंगा	0.07
13	285	993	लूंगा	0.19
14	229	992	डोवा (लूंगा)	0.02
15	1119	1007	टीला	0.02
16	892	991	चारा (टीला)	0.19
17	1120	989	टीला	0.22
18	1120	990	डोवा (टीला)	0.02
19	149	892	लूंगा	0.46
20	1621	1009	टीला	0.04
21	525	891	लूंगा	0.32
22	1669	890	नाल	0.14
23	333	889	लूंगा	0.13
24	333	886	लूंगा	0.10
25	333	885	लूंगा	0.26
26	1854	884	लूंगा	0.11
27	348	848	लूंगा	0.27
28	587	847	लूंगा	0.60
29	1/44	829	चारा (टीला)	0.01
30	933	849	टीला	0.01

31	221	827	लूंगा	0.25
32	1019	833	टीला	0.13
33	221	823	लूंगा	0.21
34	3/2	1035	टीला	0.49
35	221	819	लूंगा	0.11
36	1/3	1037	लूंगा	0.03
37	1/40	1038	लूंगा	0.03
38	1/2	816	लूंगा	0.17
39	586	394	लूंगा	0.06
40	3/2	424	टीला	1.22
41	1143	393	नाल	0.07
42	404	397	नाल	0.26
43	1084	398	नाल	0.20
44	163	399/4061	नाल	0.04
45	48	399/4062	नाल	0.04
46	479	399	नाल	0.14
47	791	400	लूंगा	0.07
48	791	403	पुकुर पार (लूंगा)	0.01
49	943	56	लूंगा	0.04
50	644	55	लूंगा	0.04
51	1/13	54	लूंगा	0.05
52	153/2	53	लूंगा	0.14
53	153	51	लूंगा	0.05
54	1/17	52	टीला	0.01
55	153	50	लूंगा	0.09
56	153	47	लूंगा	0.18
57	153	46	लूंगा	0.40
58	739	45	टीला	0.02
59	153	42	लूंगा	0.24
60	1/17	63	टीला	0.01
61	153	41	लूंगा	0.01
62	221	828	लूंगा	0.26
63	933	883	टीला	0.01
कुल				9.71

मौजा: सिलघाटी

जिला: गोमती

तहसील: काकरावन

उप-प्रभाग : उदयपुर

भूमि की अनुसूची

क्र. सं.	खसरा सं.	प्लॉट सं.	भूमि का वर्ग	एकड़ में क्षेत्रफल
1	1195	3029	टीला	0.01
2	1103	3030	टीला	0.60
3	1386	3031	टीला	0.01
4	535	3330	लूंगा	0.16
5	2604	3331	लूंगा	0.17
6	650	3334	लूंगा	0.30
7	650	3335	लायक पतित	0.26
8	1003	3025/5188	लूंगा	0.11
9	741	3025/5189	लूंगा	0.16
10	253	3025	लूंगा	0.26
11	595/2	3024	लूंगा	0.18
12	921	3022	लूंगा	0.09
13	921	3021	लूंगा	0.38
14	923	3019	लूंगा	0.09
कुल				2.78

मौजा: पूर्व नलचर

जिला: सिपाहीजला

तहसील: नलचर

उप-प्रभाग : सोनामुरा

भूमि की अनुसूची:

क्र. सं.	खसरा सं.	प्लॉट सं.	भूमि का वर्ग	एकड़ में क्षेत्रफल
1	2020	5667/8151	टीला	0.53
2	2020	5660	लूंगा	0.02
3	2020	5622	लूंगा	0.10
4	2020	5623	बागान (टीला)	0.01
5	2020	5621	लूंगा	0.05
6	1/175	5620	टीला	0.01
कुल				0.72

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/4/2025- इएक्सपीएल-पीएनजी (ई-52425)]

सचिन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2025

S.O. 1220(E).—whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Natural Gas from **Well SD#24 to Sundalbari Manifold** a pipeline should be laid in the state of Tripura by the Oil and Natural Gas Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipelines are proposed to be laid and which are described in the Schedule annexed here to;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user there in;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty- one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, RoU, ONGC Base Complex, Badharghat, Agartala, Tripura-799014.

SCHEDULE

Well SD#24 to Sundalbari Manifold

Mouza: Mohanbhog

District: Sipahijala

Tehsil : Telkajala

Sub- Division: Sonamura

Schedule of Land:

Sl.No.	Khatian No.	Plot No.	Class of Land	Area in acres
1	286	2826	Lunga	0.43
2	756	1032	Tilla	0.01
3	1191	1029	Lunga	0.08
4	1191	1028	Chara (Lunga)	0.05
5	1038	1027	Tilla	0.04
6	1177	1020	Tilla	0.32
7	229	999	Lunga	0.22
8	3/4	1024/4126	Tilla	0.02
9	600	1024	Tilla	0.13
10	229	998	Chara (Lunga)	0.08
11	600	997	Chara (Tilla)	0.07
12	285	1000	Lunga	0.07
13	285	993	Lunga	0.19
14	229	992	Dova (Lunga)	0.02
15	1119	1007	Tilla	0.02
16	892	991	Chara (Tilla)	0.19
17	1120	989	Tilla	0.22
18	1120	990	Dova (Tilla)	0.02
19	149	892	Lunga	0.46
20	1621	1009	Tilla	0.04
21	525	891	Lunga	0.32
22	1669	890	Nal	0.14
23	333	889	Lunga	0.13
24	333	886	Lunga	0.10
25	333	885	Lunga	0.26

26	1854	884	Lunga	0.11
27	348	848	Lunga	0.27
28	587	847	Lunga	0.60
29	1/44	829	Chara (Tilla)	0.01
30	933	849	Tilla	0.01
31	221	827	Lunga	0.25
32	1019	833	Tilla	0.13
33	221	823	Lunga	0.21
34	3/2	1035	Tilla	0.49
35	221	819	Lunga	0.11
36	1/3	1037	Lunga	0.03
37	1/40	1038	Lunga	0.03
38	1/2	816	Lunga	0.17
39	586	394	Lunga	0.06
40	3/2	424	Tilla	1.22
41	1143	393	Nal	0.07
42	404	397	Nal	0.26
43	1084	398	Nal	0.20
44	163	399/4061	Nal	0.04
45	48	399/4062	Nal	0.04
46	479	399	Nal	0.14
47	791	400	Lunga	0.07
48	791	403	Pukurpar (Lunga)	0.01
49	943	56	Lunga	0.04
50	644	55	Lunga	0.04
51	1/13	54	Lunga	0.05
52	153/2	53	Lunga	0.14
53	153	51	Lunga	0.05
54	1/17	52	Tilla	0.01
55	153	50	Lunga	0.09
56	153	47	Lunga	0.18
57	153	46	Lunga	0.40
58	739	45	Tilla	0.02
59	153	42	Lunga	0.24
60	1/17	63	Tilla	0.01
61	153	41	Lunga	0.01
62	221	828	Lunga	0.26
63	933	883	Tilla	0.01
Total				9.71

Mouza: Silghati**Tehsil : Kakraban****Schedule of Land:****District: Gomati****Sub- Division: Udaipur**

Sl.No.	Khatian No.	Plot No.	Class of Land	Area in acres
1	1195	3029	Tilla	0.01
2	1103	3030	Tilla	0.60
3	1386	3031	Tilla	0.01

4	535	3330	Lunga	0.16
5	2604	3331	Lunga	0.17
6	650	3334	Lunga	0.30
7	650	3335	Layak Patit	0.26
8	1003	3025/5188	Lunga	0.11
9	741	3025/5189	Lunga	0.16
10	253	3025	Lunga	0.26
11	595/2	3024	Lunga	0.18
12	921	3022	Lunga	0.09
13	921	3021	Lunga	0.38
14	923	3019	Lunga	0.09
Total				2.78

Mouza: Purba Nalchar**District: Sipahijala****Tehsil : Nalchar****Sub- Division: Sonamura****Schedule of Land:**

Sl.No.	Khatian No.	Plot No.	Class of Land	Area in acres
1	2020	5667/8151	Tilla	0.53
2	2020	5660	Lunga	0.02
3	2020	5622	Lunga	0.10
4	2020	5623	Bagan (Tilla)	0.01
5	2020	5621	Lunga	0.05
6	1/175	5620	Tilla	0.01
Total				0.72

[F. No. Expl-13011(26)/4/2025-EXPL-PNG (E-52425)]

SACHIN KUMAR, Under Secy.